

March 21, 2023

Corporate Relationship Department
BSE Limited
Pheeroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.- 'C' Block, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

Scrip Code: 531595

Scrip Code: CGCL

Sub.: Intimation as per Regulation 92 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") and Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations")

Ref.: Advertisement in respect of matters relating to rights issue of equity shares of Capri Global Capital Limited (the "Company")

Dear Sir/ Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed the copy of advertisement issued by the Company today, i.e. March 21, 2023 in the following newspapers

- i. Business Standard (English & Hindi); and
- ii. Punya Nagari (Marathi)

This intimation is issued in terms of Regulation 92 of the SEBI ICDR Regulations, Regulation 30 of the SEBI Listing Regulations and all other applicable provisions.

The above advertisement is also available on the website of the Company i.e., www.capri loans.in

You are requested to kindly take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Capri Global Capital Limited**

Yashesh Bhatt
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: A20491

Encl.: As above



Capri Global Capital Limited

(CIN: L65921MH1994PLC173469)

502, Tower - A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013
+9122 4088 8100/4354 8200 | contact@capriglobal.in | www.capri loans.in

NSE
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.
"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

PUBLIC NOTICE

Public Notice for compulsory delisting of equity shares of companies in terms of Regulation 32 (5) (a) of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 read with Rule 21(b) of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957

Notice is now given that it has been decided to delist (withdraw the admission to dealings in) the equity shares of the following company w.e.f. **March 22, 2023**, in terms of Regulation 32 (5) (a) of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("Delisting Regulations"), Section 21A of Securities Contract (Regulation) Act, 1956, Securities Contract (Regulations) Rules, 1957 and Bye-Laws and Regulations of National Stock Exchange of India Limited ("Exchange").

Companies Compulsorily Delisted due to Non-Compliance.

Name and Registered office address of the Company*	Fair value (Rs. per share)	Name of the Promoters of the company**	Address of the Promoters of the company**
Chp Leisure Limited Shop No. 3, Second Floor, Xth Central Mall, Near Dmart, Mahadev Nagar, K. a. n. d. i. v. a. l. l. West Mumbai - 400067.	15.03	L.Prafulla Bhat	B/2306 Sky Flama, Dosti Fleming, China Mill Compound T-13 Marg, Parel, Sewree Mumbai Maharashtra India 400015
Powerful Technologies Limited G11 Prakash Ch a m b e r, Ground Floor, 6, Netaji Subash Marg, Darya, New Delhi 110002.	Nil	L.Nitin Chhabra	Flat No. B-3-504 Olive Country Sector -15 Ghaziabad Uttar Pradesh India 201012
		2.Adiya Gupta	H. No -1288 Lambi Gali Bagichi Ghodi Mal Near Novvity Cinema G.P.O Delhi India 110006
		F 301 Bhagwan Apts Mayur Vihar Phase 1 Delhi, India 110091	
		3.Karuna Chhabra	223 Sector-1 Vasundra Ghaziabad Uttar Pradesh India 201012

* Address available as per the records of the MCA/Exchange.
** Address available as per the records of the Exchange.

The consequences of compulsory delisting include the following:

- In terms of Regulation 34(1) of the Delisting Regulations, the delisted company, its whole-time directors, promoters, and group companies shall be debarred from accessing securities market for a period of 10 years from the date of compulsory delisting.
- The bonus of giving exit to the public shareholders and providing information to the Stock Exchanges for fair valuation is on the promoters of the company. In case, exit is not provided by the promoters, appropriate action would be taken against them.

Any queries can be addressed to **Delisting Committee**, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051. Tel: +91 22 26598100 (23462), e-mail: compliance_listinginfo@nse.co.in or delisting@nse.co.in

Place: Mumbai Date: March 21, 2023

Nifty50

kotak
Kotak Mahindra Bank Limited
CIN - L65110MH1985PLC038137
Registered Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051
Tel: +91-22-61660001 Fax: +91 22 6713 2403
Website: www.kotak.com E-mail: KotakBank.Secretarial@kotak.com

NOTICE

Members of Kotak Mahindra Bank Limited ("Bank") are hereby informed that the Bank has, on March 20, 2023, sent the Postal Ballot Notice dated March 18, 2023 (the "Postal Ballot Notice"), by e-mail, to all Members whose name appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners, received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), as on Friday, March 17, 2023 ("Eligible Members") and whose e-mail IDs were available with the Bank, for seeking their assent / dissent on the resolutions specified in the Postal Ballot Notice.

A copy of the Postal Ballot Notice is also available on the website of the Bank: <https://www.kotak.com/en/investor-relations/governance/sebi-listing-disclosures.html>, the relevant section of the website of the Stock Exchanges on which the Equity Shares of the Bank are listed i.e. BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com and the website of the remote e-voting service providing agency to the Bank viz. NSDL: www.evoting.nsdl.com. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download the same from the above mentioned websites.

Please note that the Postal Ballot Notice has been sent to the Eligible Members, by e-mail only, and the Bank is providing facility for voting remotely, only by electronic means ("e-voting"), to its Eligible Members, for seeking their approval on the resolutions specified in the Postal Ballot Notice, in accordance with Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with circular of SEBI on e-Voting Facility provided by Listed Entities, dated December 9, 2020, Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) and any other applicable law, rules, guidelines and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force).

The Bank has engaged the services of National Securities Depository Limited as the agency for providing e-voting facility to the Eligible Members, enabling them to cast their vote in a secured manner.

In terms of the MCA Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice, along with postal ballot form and pre-paid business reply envelope, have not been sent to any Member. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members eligible to vote, is restricted only to e-voting i.e. by casting their votes electronically instead of submitting postal ballot forms.

Members holding Equity Shares of the Bank as on Friday, March 17, 2023 (the "Cut-off Date"), shall only be entitled to vote through e-voting process in relation to the Resolutions specified in the Postal Ballot Notice.

A person who becomes a Member after the Cut-off Date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only. Eligible Members who have not registered their e-mail IDs, are required to register the same on or before 10:00 a.m. (IST) on Thursday, April 20, 2023 so as to receive the Postal Ballot Notice and the procedure for e-voting along with the login ID and password related details. The procedure to register email ID is, given below:

Members may send a request to KotakBank.Secretarial@kotak.com for procuring user ID and password for e-voting.

- In case shares are held in physical mode, please provide Folio Number, name of the Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card) and Aadhaar (self-attested scanned copy of Aadhaar Card).
- In case shares are held in demat mode, please provide DP ID and Client ID (16-digit DP ID and Client ID or 16-digit beneficiary ID), name of Member, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN Card) and Aadhaar (self-attested scanned copy of Aadhaar Card).

Members are required to update their mobile number and email ID correctly in their Demat account in order to access e-voting facility.

After successful submission of the e-mail ID, the Bank or NSDL will share an electronic copy of the Postal Ballot Notice within 48 hours of receiving details of e-mail ID.

The manner of e-voting by (i) individual Members holding Equity Shares of the Bank in demat mode, (ii) Members other than individuals holding Equity Shares of the Bank in demat mode, (iii) Members holding Equity Shares of the Bank in physical mode, and (iv) Members who have not registered their e-mail address, is explained in the Notes to the Postal Ballot Notice. The manner in which persons who have forgotten their User ID and Password, can obtain / generate the same, has also been provided in the Postal Ballot Notice.

The e-voting period will commence on Wednesday, March 22, 2023 (9:00 a.m. IST) and end on Thursday, April 20, 2023 (5:00 p.m. IST). During this period, Eligible Members of the Bank may cast their votes electronically. The e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period.

The Board of Directors of the Bank have appointed Ms. Rupal D. Jhaveri (Membership No. 5441 and Certificate of Practice No. 4225), Practising Company Secretary and Partner in RJSY & Associates, as the Scrutinizer and Ms. Sadhana Yadav, (Membership No. 27559 and Certificate of Practice No. 16932), Practising Company Secretary and Partner in RJSY & Associates, as an Alternate Scrutinizer to Ms. Rupal D. Jhaveri, for conducting the Postal Ballot only through the e-voting process, in a fair and transparent manner.

After completion of scrutiny of the votes cast, the Scrutinizer will submit her Report to the Chairman of the Bank, or in his absence, the Joint Managing Director or the Company Secretary. The results of the e-voting will be announced by the Chairman of the Bank, or in his absence, the Joint Managing Director or the Company Secretary, on or before Monday, April 24, 2023 on the website of the Bank: <https://www.kotak.com/en/investor-relations/governance/sebi-listing-disclosures.html> and NSDL: <https://www.evoting.nsdl.com> and also displayed at the Registered Office of the Bank. The same will also be simultaneously forwarded to the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed, for placing the same on their websites i.e. BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

The resolutions, if approved, will be taken as having been duly passed on the last date specified for e-voting i.e. Thursday, April 20, 2023.

For KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Sd/-
Mumbai
March 20, 2023
Avan Doomasia
Company Secretary

M. P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.
(Govt. of M.P. Undertaking)
NISHTHA PARISAR, BIJALEE NAGAR, GOVINDPURA, BHOPAL-23
Phone No. : 0755-2602033-36, Fax : 2589821, 2586636
Ref : MD/MK/04/NIT/3757 Date : 20.03.2023

TENDER NOTICE

MPMKVVCL, Bhopal, invites following bids from manufacturers through E-tendering.

Sr. No.	Tender Specification Number	Particulars	Approx. Value (Rs. Lakh)	Tender Fee including GST (in Rs.)	Date of Pre-Bid Conference	Date of opening of tender
1	MD/ MK/04/890	Rate Contract for supply of Three Phase 40-200 Amp Energy meters with modem	1972.27	11800	29.03.2023 03.00 PM	18.04.2023 03:00 PM
2	MD/ MK/04/891	Rate Contract for supply of Poly carbonate box for Single Phase meter	621.67	11800	31.03.2023 03.00 PM	19.04.2023 03:00 PM
3	MD/ MK/04/892	Rate Contract for supply of Poly carbonate box for Three Phase meter	63.00	5900	31.03.2023 03.00 PM	19.04.2023 03:00 PM

Other details and full tender documents will be available on Company website <https://portal.mpcz.in> & Govt. Website <https://mptenders.gov.in> shortly.
M.P. Madhyam/109060/2023
CHIEF GENERAL MANAGER (PROC.)

This is an advertisement for information purposes only and it is not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated February 13, 2023 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and together with BSE, "Stock Exchanges" and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



Please scan this QR code to view the Letter of Offer



Capri Global Capital Limited

The Company was originally incorporated as "Daiva Securities Limited" in Calcutta on November 15, 1994, as a public limited company under the Companies Act, 1956, with a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. The Company received the certificate of commencement of business from the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on November 28, 1994. Subsequently, the name of the Company was changed to "Dover Securities Limited" and a fresh certificate of incorporation was granted by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta, on May 19, 1999. The name of the Company was further changed to "Money Matters Financial Services Limited" and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("RoC") on October 6, 2008. The name of the Company was further changed to "Capri Global Capital Limited" and a fresh certificate of registration was issued by the RoC on July 24, 2013. For details of changes in name and registered office of our Company, see "General Information" beginning on page 73 of the LOF.

Registered and Corporate Office: 502, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Maharashtra, India. Tel: +91 22 4088 8100/ 4582 2500; **Contact Person:** Yashesh Bhatt, Company Secretary and Compliance Officer. E-mail: secretarial@capriglobal.in; **Website:** www.capriioans.in. **Corporate Identity Number:** L65921MH1994PLC173469

PROMOTERS OF THE COMPANY: RAJESH SHARMA, JINISHA SHARMA, JAHNAVI SHARMA, RAGHAV SHARMA, RAMESH CHANDRA SHARMA AND RAMESH CHANDRA SHARMA HUF

ISSUE OF 30,315,789 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2.00 EACH OF THE COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹475 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 473 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹14,400 MILLION ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IN THE RATIO OF 11 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 64 EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 17, 2023 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 349 OF THE LOF.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Capri Global Capital Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Monday, February 27, 2023 and closed on Friday, March 10, 2023 with the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements on Monday, March 6, 2023. Out of the total 1,424 Applications for 32,857,091 Rights Equity Shares 77 Applications for 52,674 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 1,347 Applications for 32,804,417 Rights Equity Shares, which was 108.21% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. The Basis of Allotment was finalised on March 16, 2023 by the Company, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue.

The Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company, at its meeting held on March 16, 2023, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 30,315,789 Equity Shares to successful Applicants.

All valid Applications have been considered for Allotment.

1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received		No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)		No. of Equity Shares allotted against additional Equity Shares applied for (B)		Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
Non Renouncees	1,290*		22,674,267		7,566,105		30,240,372	
Renouncees	59		75,417		0		75,417	
Total	1,349		22,749,684		7,566,105		30,315,789	

* Includes 2 partial rejected cases

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications received		Equity Shares applied for		Equity Shares Allotted			
	Number	%	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)	%	%
Non Renouncees	1,365	95.86	32,766,675	15,564,170,625	99.72	30,240,372	14,364,176,700	99.75
Renouncees	59	4.14	90,416	42,947,600	0.28	75,417	35,823,075	0.25
Total	1,424	100.00	32,857,091	15,607,118,225	100.00	30,315,789	14,399,999,775	100.00

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on March 20, 2023. The instructions to SCBSs for unblocking of funds in case of ASBA Applications were given on March 16, 2023.

The listing application was filed with BSE and NSE on March 16, 2023 and subsequently the listing approvals were received on March 17, 2023 from BSE and NSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees was completed on March 20, 2023. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE and NSE, the Rights Equity Shares Allotted in the Issue are expected to commence trading on BSE and NSE with effect from March 21, 2023 and shall be traded under the same ISIN INE180C01026 as the existing Equity Shares. In accordance with the SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement has been sent to NSDL & CDSL on March 17, 2023.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of the LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 344 of the LOF

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in any way, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 346 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of NSE" on page 346 of the LOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
ICICI Securities ICICI Securities Limited ICICI Venture House Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6807 7100 E-mail: cgcl.rights@icicisecurities.com Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Contact Person: Rupesh Khant SEBI Registration No.: INM000011179	LINK Intime Link Intime India Private Limited C-101, 1st floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 22 4918 6200 E-mail: capri.rights@linkintime.co.in Investor Grievance ID: capri.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Sumeet Deshpande SEBI Registration No.: INR000004058	Yashesh Bhatt 502, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai - 400 013, Maharashtra, India. Tel: +91 22 4088 8100/ 4582 2500 E-mail: secretarial@capriglobal.in Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCBS, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCBS where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" beginning on page 349 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Capri Global Capital Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Yashesh Bhatt
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: March 20, 2023

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.icicisecurities.com, the websites of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com, the Company's website at www.capriioans.in and the website of the Registrar at <https://rights.linkintime.co.in>. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the LOF, including the section titled "Risk Factors", beginning on Page 22 of the LOF, for details of the same.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer or sale of securities in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no public offering of securities is being made in the United States.

The ALL-NEW Business Standard App
Making Devices Smart, Insight Out.

The Business Standard Morning show
New episodes at 8am, Monday to Friday

Daily market insights
Get detailed analysis and updates on the share market

Go offline
Online. Offline. Anytime. Stay connected, always

Dark mode
Introducing dark mode for easy reading

Read to me
Listen on the move

Quick reads
For when you don't have time

Download now from bit.ly/BS_app

Business Standard
Insight Out

[bsindia](https://www.bsindia.com)
[bsindia](https://www.bsindia.com)
[business-standard.com](https://www.business-standard.com)

बैंकिंग संकट से तेल में फिसलन

कच्चे तेल पर बैंकिंग संकट का दबाव कितने समय तक रहेगा, यह घटनाक्रम पर निर्भर करेगा

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 20 मार्च

विश्लेषकों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट अस्थायी हो सकती है, क्योंकि उन्हें अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट पूरी तरह दूर होने पर तेल कीमतों में तेजी आने का अनुमान है।

कच्चे तेल की कीमत एक सप्ताह पहले के 80.6 डॉलर प्रति बैरल से 10 प्रतिशत घटकर 72.4 डॉलर पर रह गई है।

तेल बाजारों के बारे में विश्लेषण मुहैया कराने वाली सिंगापूर स्थित वंदा इनसाइट्स की संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी वंदना हरि के अनुसार, पिछले सप्ताह के दौरान कच्चे तेल में गिरावट को बैंकिंग संकट की वजह से जोखिमपूर्ण परिस्वरितियों से भारी बिकवाली की वजह से बढ़ावा मिला था।

उन्होंने कहा, 'बैंकिंग घटनाक्रम से वित्तीय संकट और/या मंदी को बढ़ावा मिल रहा है। कच्चे तेल पर दबाव कितने समय तक रहेगा, यह



गिरावट का कितना असर

■ विश्लेषक तेल कीमतों में आई बड़ी गिरावट को अस्थायी मान रहे हैं

■ विश्लेषकों का कहना है कि जब बैंकिंग संकट दूर हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तरों से धीरे धीरे सुधरने लगेंगी

घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। पहला, प्रतिफल स्थायित्व और बैंकिंग क्षेत्र (खासकर अमेरिका और यूरोप) में निवेशकों का भरोसा और फंड की दर वृद्धि तथा बुधवार को पविल की प्रतिक्रिया।

अमेरिका में बैंकिंग क्षेत्र पर ताजा संकट सिलिकन वैली बैंक (एसवीबी), सिल्वरगेट कैपिटल और सिग्नेचर बैंक बंद होने के साथ शुरू हुआ है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भी अमेरिकी बैंकिंग

प्रणाली पर अपना आउटलुक 'स्टेबल' से घटकर 'निगेटिव' कर दिया है। मूडीज ने इसके लिए इन बैंकों में जमाओं में तेज निकासी की हवाला दिया, जिससे एक सप्ताह से भी कम समय में इन दिग्गज बैंकों को बंद करने की नौबत पैदा हो गई। यूरोप में, यूबीएस द्वारा सरकार की मध्यस्थता वाले सौदे के तहत करीब 3.25 अरब डॉलर में संकटग्रस्त प्रतिस्पर्धी क्रेडिट सुइस खरीदने पर सहमत जताने के बाद हालात

कमजोरी आने और मंदी गहराने की आशंका जताई है।

उनका कहना है कि जब बैंकिंग संकट दूर हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तरों से धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। वंदा इनसाइट्स की वंदना हरि को तेल कीमतों 2023 के अंत तक करीब 18 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

उन्होंने कहा, 'अगले 6-8 महीने में कच्चे तेल की कीमतों का अनुमान लगाना कठिन है। बैंकिंग संकट समाप्त होने और आर्थिक परिदृश्य फिर से सप्ताहभर पहले जैसा होने पर हमें कच्चे तेल की कीमतें 2023 के अंत तक 75-85 डॉलर के दायरे में पहुंचने का अनुमान है।'

इक्विनोमिक्स रिसर्च एंड एडवायजरी के संस्थापक जी चोकालिंगम के अनुसार मुद्रास्फूर्ति में नरमी, बैंकिंग प्रणाली में ताजा पूंजी आने और दर वृद्धि चक्र की समाप्ति से 2024 से आर्थिक सुधार को मजबूती मिलेगी। उनका मानना है कि इससे कच्चे तेल की कीमतें चढ़ेंगी।

दुनिया भर में सोने में चमक

भारत में 60 हजार के पार

रॉयटर्स

सोमवार को सोने की कीमतों में मुनाफावसूली के बाद नरमी दर्ज की गई। दिन के शुरू में सोना चढ़कर 2,000 डॉलर के एक वर्ष ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन बैंकिंग संकट और फेडरल रिजर्व द्वारा दर वृद्धि की संभावना से इसमें बाद में कमजोरी दर्ज की गई। सोने का हाजिर भाव 0.6 प्रतिशत गिरकर 1,975.33 डॉलर प्रति औंस रह गया। अमेरिकी स्वर्ण वायदा भाव 0.8 प्रतिशत चढ़कर 1,988.90 डॉलर पर पहुंच गया।

काइनेसिस मनी में बाहरी मामलों के विश्लेषक कारलो अलबर्टो डीकासा ने कहा, 'बैंकिंग संकट और बाजार में दबाव की वजह से सोना लगातार सुरक्षित निवेश विकल्प बना हुआ है। इसके अलावा, फेड द्वारा दर वृद्धि को लेकर कम आक्रामक रुख अपनाए जाने की संभावना से भी कीमतों को मदद मिल रही है।'

डी कासा ने कहा, 'यदि बैंकिंग संकट और गंभीर होता है तो सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है।' उन्होंने कहा कि 2,000 डॉलर के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद सोने में मुनाफावसूली हुई है। 2,000 डॉलर सोने के लिए एक मुख्य प्रतिरोध स्तर है।

मौजूदा बैंकिंग संकट के बीच, निवेशक बुधवार को प्रस्तावित फेड के नीतिगत निर्णय पर भी नजर लगाए रहेंगे। कारोबारी फेड द्वारा दरें मौजूदा दायरे में बनाए रखे जाने की 59 प्रतिशत संभावना देख रहे हैं।

सोने की वित्तीय अनिश्चितता के समय में सुरक्षित निवेश विकल्प समझा जाता है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में

आगे की राह

■ सभी की नजर इस सप्ताह होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक पर लगी हुई है

■ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हुई मुनाफावसूली, जिससे सोना थोड़ा नीचे आया

■ दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार को सोने में 1,400 रुपये की तेजी दर्ज की गई

सोमवार को सोने का भाव 1,400 रुपये की तेजी के साथ 60,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर को छू गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,860 रुपये के उछाल के साथ 69,340 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। एचडीएफसी

सिक्वोरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सीमिल गांधी ने कहा, 'दिल्ली के बाजार में सोने का हाजिर भाव 1,400 रुपये की तेजी के साथ 60,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।' गांधी ने कहा कि एशियाई कारोबार के घंटों में सोमवार को कॉमेक्स में सोने की कीमतों में तेजी रही और यह 52 सप्ताह के नए उच्चस्तर 2,005 डॉलर प्रति औंस पर जा पहुंचा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेशियल सर्विसेज में जिस शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत दामानी ने कहा, मुद्रास्फूर्ति के खिलाफ अपनी लड़ाई में फेडरल रिजर्व कम आक्रामक है। बैंकिंग संकट की लहर ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है।

तेल कीमतें 71 डॉलर तक फिसलीं

रॉयटर्स
लंदन, 20 मार्च

सोमवार को तेल कीमतें गिरकर 15 महीने में अपने निचले स्तर पर आ गईं। वैश्विक बैंकिंग संकट और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की चिंता से मंदी गहराने का जोखिम बढ़ा है। इससे तेल की मांग कमजोर हो सकती है। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में, मई के लिए ब्रेंट क्रूड वायदा 87 सेंट या 1.2 प्रतिशत कमजोर होकर 72.10 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 71 डॉलर प्रति बैरल तक चला गया था। अप्रैल के लिए वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट क्रूड अनुबंध मंगलवार को अपनी एक्सपायरी से पहले 85 सेंट या 1.3 प्रतिशत गिरकर 65.89 डॉलर पर आ गया। पिछली बार दिसंबर 2021 में ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में करीब 3 डॉलर तक की कमजोरी आई थी और डब्ल्यूटीआई 65 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया था।

बैंकिंग संकट गहराने की वजह से इन दोनों बेंचमार्क में पिछले सप्ताह अपने मूल्य में 10 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई। तेल कीमतों में गिरावट स्वित्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस के लिए ऐतिहासिक सौदे



पिछली बार दिसंबर 2021 में ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में करीब 3 डॉलर तक की कमजोरी आई थी और डब्ल्यूटीआई 65 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया था

(क्रेडिट सुइस को खरीदने के लिए) के बावजूद दर्ज की गई। सोमवार को भी बैंकिंग शेरों और बॉन्डों पर दबाव बना रहा, जो इस बात का संकेत है कि निवेशक धारणा कमजोर बनी हुई है।

इस सौदे की घोषणा के बाद, अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने बाजार तरलता बढ़ाने और अन्य बैंकों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

नकदी के तंग

हालात, कॉल रेट

7 फीसदी पर

बैंकों के ओवरनाइट फंडों की लागत का प्रतिनिधित्व करने वाला अंतरबैंक कॉल मनी रेट सोमवार को 7 फीसदी के उच्चस्तर पर पहुंच गया क्योंकि कर के लिए रकम जमा कराने से बैंकिंग व्यवस्था की नकदी पर खासा दबाव पड़ा। उच्चस्तर पर पहुंचने के बाद दरें हालांकि नरम हुईं और भारीकॉल औसत कॉल रेट (जो आरबीआई की मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है) 6.69 फीसदी पर टिका। क्लियरिंग कॉर्रिपोरेशन के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। सोमवार के बंद स्तर पर भारीकॉल औसत कॉल रेट, रीपो दर 6.50 फीसदी के मुकाबले ज्यादा रहा और यह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75 फीसदी से भी ज्यादा दूर नहीं रहा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आरबीआई की ब्याज दर कॉरिडोर का उच्चतर बेंड है। विश्लेषकों ने कहा कि मनी मार्केट की उच्च दर का मौजूदा चरण कर मुनाफा के कारण देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ महीनों में बैंकिंग व्यवस्था की नकदी खासी कम हुई है और आगामी महीनों में भी स्थिति सख्त बनी रह सकती है। बीएस

शेयर बाजार का गिरावट 'मार्च'

पृष्ठ-1 का शेष

फेड की नीतिगत घोषणा के अलावा निवेशकों की नजर ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्ड क्रिस्टिन लेगार्ड और अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येनल के बयान पर भी है। बैंक ऑफ इंगलैंड और स्विस नेशनल बैंक भी इस हफ्ते दरों पर निर्णय की घोषणा कर सकता है।

हालांकि बैंकिंग संकट में कुछ को उम्मीद भी नजर आ रही है। आनंद राठी रिसर्च ने एक नोट में कहा है, 'फेड द्वारा तरलता बढ़ाए जाने और ज्यादा नरम नीतिगत रुख अपनाए जाने से भारतीय रिजर्व बैंक भी इस तरह की रणनीति अपना सकता है। ऐसे में देश में ब्याज दर की तस्वीर ज्यादा उम्मीद भरी हो गई है। अमेरिका में दो बैंकों के डूबने से भारत की सूचीबद्ध कंपनियों की आय संभावना पर खास असर नहीं पड़ा है। इसके उलट ब्याज दरों में संभावित कमी, बॉन्ड प्रतिफल में नरमी आदि का घरेलू शेरों के मूल्यांकन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।'

हालांकि निकट अवधि में उठापटक से बचना बाजार के लिए कठिन होगा। इंडिया वीआईएक्स सूचकांक 8 फीसदी बढ़कर 16 पर पहुंच गया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर 2,671 शेयर नुकसान में रहे और केवल 1,072 लाभ पर बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में करीब 1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस साल अब तक रिलायंस का शेयर अंक 14 फीसदी नीचे आ चुका है। इन्फोसिस 1.2 फीसदी और एचडीएफसी बैंक 0.73 फीसदी की गिरावट पर बंद हुआ। हिंदुस्तान यूनिटीवर में 2.5 फीसदी की तेजी देखी गई।

एमएफ के आर्बिट्राज फंडों की बढ़ रही है लोकप्रियता

अभिषेक कुमार
मुंबई, 20 मार्च

पिछले करीब 6 महीनों में भारी बिकवाली के बाद आर्बिट्राज फंडों में तीन महीने से शुद्ध पूंजी प्रवाह दर्ज किया गया है। इन म्युचुअल फंड (एमएफ) योजनाओं के प्रदर्शन में सुधार के बाद इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच रुझान में यह बदलाव देखा गया है।

जून और नवंबर के बीच निवेशकों ने आर्बिट्राज फंडों से 31,000 करोड़ रुपये निकाले थे। एम्फों के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन महीने में निवेशकों ने इन योजनाओं में करीब 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। आर्बिट्राज फंड कम जोखिम वाली इक्विटी योजनाएं होती हैं और इनके प्रतिफल की तुलना डेट एमएफ सेगमेंट में लिक्विड फंडों से की जाती है। ये योजनाएं पूरी तरह से सुरक्षित इक्विटी पोर्जिशन से जुड़ी होती हैं और इनमें शेयर वायदा और

संबद्ध शेयर की कीमतों में अंतर से प्रतिफल हासिल होता है। इसलिए, आर्बिट्राज फंडों का प्रदर्शन नकदी बाजार और वायदा बाजार में इक्विटी के कीमत अंतर पर निर्भर करता है। फंड प्रबंधकों के अनुसार, हाल के समय में इस अंतर में सुधार आया है जिससे बेहतर प्रतिफल को बढ़ावा मिला है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि कई आर्बिट्राज योजनाओं का प्रदर्शन हाल में तेजी से सुधरा है। उदाहरण के लिए, हाइब्रिड योजनाओं का औसत मासिक प्रतिफल पिछले तीन महीने में 0.6 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले



निवेशकों का रुझान

■ इन म्युचुअल फंड योजनाओं से लंबी अवधि तक बिकवाली के बाद अब इनमें निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है


■ आर्बिट्राज फंड प्रबंधकों को हाल के महीनों में इक्विटी बाजार में जारी उतार-चढ़ाव का लाभ मिला है

■ जून और नवंबर के बीच निवेशकों ने आर्बिट्राज फंडों से 31,000 करोड़ रुपये निकाले थे


6 महीने में यह आंकड़ा 0.6 प्रतिशत था। आर्बिट्राज फंड प्रबंधकों को हाल के महीनों में इक्विटी बाजार में जारी उतार-चढ़ाव का लाभ मिला है। मनी मंत्र के संस्थापक विरल भट्ट का कहना है, 'आर्बिट्राज फंडों में ज्यादा उतार-चढ़ाव की अवधि के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार के ऐसे दौर में आर्बिट्राज इंडेक्स बढ़ जाते हैं।' मार्निंगस्टार एडवायजरी के धवल कपाडिया का मानना है कि आर्बिट्राज फंडों का प्रतिफल काफी हद तक मनी मार्केट दरों के अनुरूप रहता है। मार्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट

एडवायजर इंडिया के निदेशक (पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट) कपाडिया का कहना है, 'इनमें मनी मार्केट दरों के अनुकूल प्रदर्शन करने की संभावना होती है। वहीं ब्याज दर वृद्धि के परिवेश में आर्बिट्राज फंडों ने बेहतर प्रदर्शन शुरू किया है।' इन योजनाओं में प्रतिफल कुछ हद तक लिक्विड फंडों के मुकाबले ज्यादा रहता है, क्योंकि आर्बिट्राज योजनाएं अपने डेट समकक्ष के मुकाबले अधिक लाभ की पेशकश करती हैं। आर्बिट्राज फंड कराधान के मोर्चे पर अपने डेट प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अलग होते हैं, क्योंकि इन पर इक्विटी फंडों की तरह कर लगता है।

This is an advertisement for information purposes only and it is not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated February 13, 2023 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and together with BSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



Please scan this QR code to view the Letter of Offer



Capri Global Capital Limited

The Company was originally incorporated as "Daiwa Securities Limited" in Calcutta on November 15, 1994, as a public limited company under the Companies Act, 1956, with a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. The Company received the certificate of commencement of business from the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on November 28, 1994. Subsequently, the name of the Company was changed to "Dover Securities Limited" and a fresh certificate of incorporation was granted by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta, on May 19, 1999. The name of the Company was further changed to "Money Matters Financial Services Limited" and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("RoC") on October 6, 2008. The name of the Company was further changed to "Capri Global Capital Limited" and a fresh certificate of registration was issued by the RoC on July 24, 2013. For details of changes in name and registered office of our Company, see "General Information" beginning on page 73 of the LOF.

Registered and Corporate Office: 502, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Maharashtra, India.
Tel: +91 22 4088 8100/ 4582 2500; **Contact Person:** Yashesh Bhatt, Company Secretary and Compliance Officer. E-mail: secretarial@capriglobal.in; **Website:** www.capriioans.in. **Corporate Identity Number:** L65921MH1994PLC173469

PROMOTERS OF THE COMPANY: RAJESH SHARMA, JINISHA SHARMA, JAHNAVI SHARMA, RAGHAV SHARMA, RAMESH CHANDRA SHARMA AND RAMESH CHANDRA SHARMA HUF

ISSUE OF 30,315,789 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2.00 EACH OF THE COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹475 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 473 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹14,400 MILLION ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IN THE RATIO OF 11 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 64 EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 17, 2023 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 349 OF THE LOF.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Capri Global Capital Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Monday, February 27, 2023 and closed on Friday, March 10, 2023 with the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements on Monday, March 6, 2023. Out of the total 1,424 Applications for 32,857,091 Rights Equity Shares 77 Applications for 52,874 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 1,347 Applications for 32,804,417 Rights Equity Shares, which was 108.21% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. The Basis of Allotment was finalised on March 16, 2023 by the Company, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue.

The Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company, at its meeting held on March 16, 2023, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 30,315,789 Equity Shares to successful Applicants.

All valid Applications have been considered for Allotment.

1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received		No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)		No. of Equity Shares allotted against additional Equity Shares applied for (B)		Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number		Number		Number		Number	
Non Renouncees	1,290*		22,674,267		7,566,105		30,240,372	
Renouncees	59		75,417		0		75,417	
Total	1,349		22,749,684		7,566,105		30,315,789	

* Includes 2 partial rejected cases

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications received		Equity Shares applied for		Equity Shares Allotted			
	Number	%	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)	%	
Non Renouncees	1,365	95.86	32,766,675	15,564,170,625	99.72	30,240,372	14,364,176,700	99.75
Renouncees	59	4.14	90,416	42,947,600	0.28	75,417	35,823,075	0.25
Total	1,424	100.00	32,857,091	15,607,118,225	100.00	30,315,789	14,399,999,775	100.00

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on March 20, 2023. The instructions to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Applications were given on March 16, 2023.



The listing application was filed with BSE and NSE on March 16, 2023 and subsequently the listing approvals were received on March 17, 2023 from BSE and NSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees was completed on March 20, 2023. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE and NSE, the Rights Equity Shares Allotted in the Issue are expected to commence trading on BSE and NSE with effect from March 21, 2023 and shall be traded under the same ISIN INE180C01026 as the existing Equity Shares. In accordance with the SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement has been sent to NSDL & CDSL on March 17, 2023.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of the LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 344 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in any way, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 346 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of NSE" on page 346 of the LOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
		Yashesh Bhatt 502, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai - 400 013, Maharashtra, India. Tel: +91 22 4088 8100/ 4582 2500 E-mail: secretarial@capriglobal.in
ICICI Securities Limited ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6807 7100 E-mail: equl.rights@icicisecurities.com Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Contact Person: Rupesh Khant SEBI Registration No.: INM000011179	Link Intime India Private Limited C-101, 1st floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 22 4918 6200 E-mail: capri.rights@linkintime.co.in Investor Grievance ID: capri.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Sumeeet Deshpande SEBI Registration No.: INR000004058	Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" beginning on page 349 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Capri Global Capital Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Yashesh Bhatt
Company Secretary and Compliance Officer

Date: Mumbai
Date: March 20, 2023

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.icicisecurities.com, the websites of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com, the Company's website at www.capriioans.in and the website of the Registrar at <https://rights.linkintime.co.in>. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the LOF, including the section titled "Risk Factors", beginning on Page 22 of the LOF, for details of the same.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer or sale of securities in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no public offering of securities is being made in the United States.

मोदींच्या पुढाकारामुळे २०४७ पर्यंत भारत ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो - अहवाल

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमांमुळे स्वच्छ ऊर्जेद्वारे २०४७ पर्यंत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था भारत ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णता प्राप्त करू शकेल. अमेरिकेतील एका सर्वोच्च संशोधन संस्थेने आपल्या अहवालात हा दावा केला आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने आयातीत अडथळे टाळण्यासाठी 'द वे टू सेल्फ-रिलेंट इंडिया' नावाचा अहवाल प्रकाशित केला आहे, ज्यामध्ये भारताने स्वच्छतेचा अवलंब करण्याच्या दिशेने उचललेल्या पावलांचे वर्णन केले आहे. ऊर्जेसाठी उचललेली पावले हायड्रोजन केली आहेत. भारत आपल्या ८० ते ८५ टक्के कच्चे तेल आणि कोळशाच्या गरजा आयातीद्वारे भागवतो. जागतिक ऊर्जा बाजारातील चढ-उतार किमती आणि पुरवठ्यामुळे भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर दबाव आला आहे. अहवालानुसार, तथापि स्वच्छ ऊर्जेच्या किमतीत अलीकडील नाट्यमय घट भारताला अक्षय्य ऊर्जा, बॅटरी स्टोअरेज आणि ग्रीन हायड्रोजनमधील गुंतवणुकीद्वारे ऊर्जा आयात कमी करण्याची संधी देते.

पंतप्रधान मोदींनी २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षय्य ऊर्जा क्षमता उभारण्याचे लक्ष्य आधीच ठेवले आहे. २०३० पर्यंत खासगी कारामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा ३० टक्के हिस्सा सरकारला हवा आहे. व्यावसायिक वाहनांसाठी ७० टक्के आणि दुचाकीसाठी ८० टक्के उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासोबतच भारताचे

नवीकरणीय स्रोतमधून वीज वापरून ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.



मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे घटक मंडळ

ई-निविदा सूचना क्र. :- का.अ. (पूर्व) / मुं. झो. सु. मंडळ / ई-निविदा / ८५ / २०२२-२३.

कार्यकारी अभियंता (पूर्व) विभाग, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा घटक) खोली क्र. ५३६, चौथा मजला, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१. (दूधवनी क्र. ०२२ ६६४०५२५१) यांनी योग्य वर्गवारी तथा शासकीय किंवा निमशासकीय नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून एकूण १० कामांकरिता बी-१ (टक्केवारी) नमुन्यातील ई-निविदा प्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) निविदा मागविण्यात येत आहेत. विस्तृत ई-निविदा सूचना व निविदा कागदपत्रे शासनाच्या संकेत स्थळ <http://mahatenders.gov.in> वर उपलब्ध असतील. निविदा विक्री दिनांक २३.०३.२०२३ सकाळी १०.०५ पासून दिनांक ३१.०३.२०२३ सायंकाळी ६.१५ पर्यंत राहिल. निविदा सूचनेबाबत शुद्धीपत्रक / बदल असल्यास फक्त <http://mahatenders.gov.in> संकेतस्थळावर प्रकाशित केले जातील. निविदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता (पूर्व), मुं. झो. सु. मंडळ यांनी राखून ठेवला आहे.

सही / - कार्यकारी अभियंता (पूर्व), मुं. झो. सु. मंडळ, मुंबई.

CPRO/A/172 म्हाडा-गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य संस्था

संजारी एसआरए को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि.

नोंदणी क्र. एमयूएम/एसआरए/एचएसजी/(टीसी)/१०८१२/२००४
परिशिष्ट क्रमांक १६
उपविधी क्रमांक ३५ अन्वये

नोटिस

या नोटिश्नद्वारे तमाम लोकांना कळविण्यात येते की, वरील संस्थेतील संजारी एसआरए को-ऑप. ही. सोसा. लि., इमारत क्र. सी-४, न्यू म्हाडा कॉलनी, कोकरी आगार, अँटॉप हिल, घडाळा, मुंबई- ४०००३७. असून या संस्थेत खालील दिलेल्या विवरण व माहितीप्रमाणे खालील मयत सभासदांच्या नावे सदनिका असून त्यांच्या मृत्युपत्रात त्यांच्या खालील वारसांनी त्यांच्या नावे सदनिका हस्तांतरित करणे व संस्थेचे सभासद करून घेण्याकरिता संस्थेकडे लेखी अर्ज केला आहे. संस्थेच्या मयत सभासदांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या कायदा १९६० नियम १९६१ व उपविधीतील तरतुदीनुसार संस्थेकडे वारस नोंद केलेली नाही. अर्ज केलेल्या खालील वारसदार व्यतिरिक्त इतर कोणीही मूळ मयत सभासदांचे वारसदार असल्यास किंवा अर्जातील वारसदाराबाबत इतर कायदेशीर सहवारादारांची काही हक्क असल्यास अशा वारसदारांनी तसेच सदर सदनिकेवर कोणत्याही प्रकारच्या बँका, वित्त संस्था किंवा कोणाही व्यक्तीचा कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर बोजा असल्यास अशा व्यक्ती किंवा संस्थेची सदर जाहिरात प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत वरील संस्थेचे सचिव यांच्याशी पूर्व सूचना व वेळ घेऊन प्रत्यक्ष कायदेशीर मूळ कागदपत्र व पुराव्यासह कार्यालयीन वेळेत सायं. ६ ते ९ वेळेत संपर्क साधावा. विहीत मुदतीत कोणाचेही कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप न आल्यास संस्थेकडे वारसदार म्हणून अर्ज केलेले अर्जदारांचे नावे मयत सभासदांच्या सदनिकेचे कायदेशीर वारसदार आहेत असे समजून संस्था अशा अर्जदार व्यक्तीच्या नावे त्या मयत सभासदांचे भाग व संस्थेतील सदनिका हस्तांतरित करेल व कायदेशीर कारवाई करिता संबंधीत प्रशासकीय कार्यालयाकडे शिफारस करेल, त्यानंतर कोणाचेही कोणत्याही प्रकारचे अर्ज कार्यकारी मंडळ विचारात घेणार नाहीत किंवा कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर नुकसान भरपाई करण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची असाणार नाही.

मयत सभासद सदनिकाधारक व त्यांची अर्जदार वारसांची सूची

अ. क्र.	रुम नं.	मयत सभासदांचे नाव	अर्जदार वारसाचे नाव	नाते
१	४०७	कै. श्री. रहमत जहीर अली दर्गा अली शेख	श्री. शकील अहमद रहमत अली शेख	मुलगा

संजारी एसआरए को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., करीता. सही / - अध्यक्ष सचिव खजिनदार

शिव सदन को. ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड.

नोंदणी क्र. एमयूएम/एमएमआरडीए/एचएसजी(टीसी)/५०/२००७-०८
परिशिष्ट क्रमांक १६
उपविधी क्रमांक ३५ अन्वये

नोटिस

या नोटिश्नद्वारे तमाम लोकांना कळविण्यात येते की, वरील संस्थेतील शिव सदन को. ऑप. ही. सोसा. लि. इमारत क्र. आर-३, एमएमआरडीए कॉलनी, निरलोड कॅम्पाउंड, वालभट्ट रोड, गोरेगाव (पूर्व). मुंबई - ४०० ०६३ असून या संस्थेत खालील दिलेल्या विवरण व माहितीप्रमाणे खालील मयत सभासदांच्या नावे सदनिका असून त्यांच्या मृत्युपत्रात त्यांच्या खालील वारसांनी त्यांच्या नावे सदनिका हस्तांतरित करणे व संस्थेचे सभासद करून घेण्याकरिता संस्थेकडे लेखी अर्ज केला आहे. संस्थेच्या मयत सभासदांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या कायदा १९६० नियम १९६१ व उपविधीतील तरतुदीनुसार संस्थेकडे वारस नोंद केलेली नाही. अर्ज केलेल्या खालील वारसदार व्यतिरिक्त इतर कोणीही मूळ मयत सभासदांचे वारसदार असल्यास किंवा अर्जातील वारसदाराबाबत इतर कायदेशीर सहवारादारांची काही हक्क असल्यास अशा वारसदारांनी तसेच सदर सदनिकेवर कोणत्याही प्रकारचा बँका, वित्त संस्था किंवा कोणीही व्यक्तीचा कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर बोजा असल्यास अशा व्यक्ती किंवा संस्थेची सदर जाहिरात प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत वरील संस्थेचे सचिव यांच्याशी पूर्व सूचना व वेळ घेऊन प्रत्यक्ष कायदेशीर मूळ कागदपत्र व पुराव्यासह कार्यालयीन वेळेत सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत संपर्क साधावा. विहीत मुदतीत कोणाचेही कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप न आल्यास संस्थेकडे वारसदार म्हणून अर्ज केलेले अर्जदारांचे नावे मयत सभासदांच्या सदनिकेचे कायदेशीर वारसदार आहेत असे समजून संस्था अशा अर्जदार व्यक्तीच्या नावे त्या मयत सभासदांचे भाग व संस्थेतील सदनिका हस्तांतरित करेल व कायदेशीर कार्यावारीकरिता संबंधीत प्रशासकीय कार्यालयाकडे शिफारस करेल. त्यानंतर कोणाचेही कोणत्याही प्रकारचे अर्ज कार्यकारी मंडळ विचारात घेणार नाहीत किंवा कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर नुकसान भरपाई करण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची असाणार नाही.

मयत सभासद सदनिकाधारक व त्यांच्या अर्जदार वारसांची सूची

अ. क्र.	रुम नं.	मयत सभासदांचे नाव	अर्जदार वारसाचे नाव	नाते
१	३०२	कै. श्री. मोहन पी. नायर	श्रीमती रघुमामा नायर	पत्नी

शिव सदन को. ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड. सही / - सही / - सही / - अध्यक्ष सेक्रेटरी खजिनदार

This is an advertisement for information purposes only and it is not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated February 13, 2023 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and together with BSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Capri Global Capital Limited

The Company was originally incorporated as "Daiwa Securities Limited" in Calcutta on November 15, 1994, as a public limited company under the Companies Act, 1956, with a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. The Company received the certificate of commencement of business from the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on November 28, 1994. Subsequently, the name of the Company was changed to "Dover Securities Limited" and a fresh certificate of incorporation was granted by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta, on May 19, 1999. The name of the Company was further changed to "Money Matters Financial Services Limited" and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("ROC") on October 6, 2008. The name of the Company was further changed to "Capri Global Capital Limited" and a fresh certificate of registration was issued by the ROC on July 24, 2013. For details of changes in name and registered office of our Company, see "General Information" beginning on page 73 of the LOF.

PROMOTERS OF THE COMPANY: RAJESH SHARMA, JINISHA SHARMA, JAHNAVI SHARMA, RAGHAV SHARMA, RAMESH CHANDRA SHARMA AND RAMESH CHANDRA SHARMA HUF

ISSUE OF 30,315,789 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2.00 EACH OF THE COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹475 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 473 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹14,400 MILLION ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IN THE RATIO OF 11 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 64 EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 17, 2023 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 349 OF THE LOF.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Capri Global Capital Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Monday, February 27, 2023 and closed on Friday, March 10, 2023 with the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements on Monday, March 6, 2023. Out of the total 1,424 Applications for 32,857,091 Rights Equity Shares 77 Applications for 52,674 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 1,347 Applications for 32,804,417 Rights Equity Shares, which was 108.21% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. The Basis of Allotment was finalised on March 16, 2023 by the Company, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue.

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received		No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)		No. of Equity Shares allotted against additional Equity Shares applied for (B)		Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number	%	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)
Non Renounees	1,290*		22,674,267	15,564,170,625	7,566,105	30,240,372	30,240,372	14,364,176,700
Renounees	59		75,417	42,947,600	0	75,417	75,417	35,823,075
Total	1,349	100.00	22,749,684	15,607,118,225	100.00	30,315,789	30,315,789	14,399,999,775

* Includes 2 partial rejected cases

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications received		Equity Shares applied for		Equity Shares Allotted	
	Number	%	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)
Non Renounees	1,365	95.86	32,766,675	15,564,170,625	99.72	30,240,372
Renounees	59	4.14	90,416	42,947,600	0.28	75,417
Total	1,424	100.00	32,857,091	15,607,118,225	100.00	30,315,789

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on March 20, 2023. The instructions to SCBSs for unblocking of funds in case of ASBA Applications were given on March 16, 2023. The listing application was filed with BSE and NSE on March 16, 2023 and subsequently the listing approvals were received on March 17, 2023 from BSE and NSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees was completed on March 20, 2023. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE and NSE, the Rights Equity Shares Allotted in the Issue are expected to commence trading on BSE and NSE with effect from March 21, 2023 and shall be traded under the same ISIN INE160C01026 as the existing Equity Shares. In accordance with the SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement has been sent to NSDL & CDSL on March 17, 2023.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of the LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 344 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 346 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of NSE" on page 346 of the LOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
ICICI Securities	LINK Intime	Yashesh Bhatt 502, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai - 400 013, Maharashtra, India. Tel: +91 22 4088 8100/ 4582 2500 E-mail: secretarial@capriglobal.in

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Capri Global Capital Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Yashesh Bhatt
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: March 20, 2023

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.icicisecurities.com, the websites of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com, the Company's website at www.capriiia.com and the website of the Registrar at https://rights.linkintime.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the LOF, including the section titled "Risk Factors", beginning on Page 22 of the LOF, for details of the same.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer or sale of securities in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no public offering of securities is being made in the United States.

TENDER NOTICE

Tenders are invited from eligible bidders for following works by e-tendering method.

Sr. No.	(Tender No)/ Estimated Amt/ Tender form fee/ EMD Amt /Name of work	Sale period of Tender ONLINE ONLY	Submission due date ONLINE ONLY
1	(SE/KC-II /EE/KLN-R/Tech/2022-23/T-11) Limited to 11,48,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 11484/- Contract for hiring of vehicle for Executive Engineer, Kalyan-R Division under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
2	(SE/KC-II /EE/Ulhas-I/Tech/2022-23/T-12)Limited to 10,76,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- Contract for hiring of vehicle for Executive Engineer, Ulhas-I Division under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
3	(SE/KC-II /EE/Ulhas-II /Tech/2022-23/T-13)Limited to 10,76,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- / Contract for hiring of vehicle for Executive Engineer, Ulhas-II Division under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
4	(SE/KC-II /EE/ Testing-II /Tech/2022-23/T-14)Limited to 14,76,000/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 14760/- / Contract for hiring of vehicle for Executive Engineer, Testing-II Division under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
5	(SE/KC-II /Testing/ Batch-I /Tech/2022-23/T-15)Limited to 14,76,000/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 14760/- / Contract for hiring of vehicle for Batch-I, Testing-II Division under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
6	(SE/KC-II /Testing/ Batch-II /Tech/2022-23/T-16)Limited to 14,76,000/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 14760/- / Contract for hiring of vehicle for Batch-II, Testing-II Division under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
7	(SE/KC-II /MURBAD/Tech/2022-23/T-17) Limited to 11,48,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 11484/- /Contract for hiring of vehicle for Dy. Executive Engineer, Murbad S/Dn under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
8	(SE/KC-II / Shahapur /Tech/2022-23/T-18)Limited to 11,48,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 11484/- /Contract for hiring of vehicle for Dy. Executive Engineer, Shahapur S/Dn under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
9	(SE/KC-II / CSD /Tech/2022-23/T-19)Limited to 11,48,400/-Lakhs /Rs.1180/- Rs. 11484/- /Contract for hiring of vehicle for Dy. Executive Engineer, CSD S/Dn under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
10	(SE/KC-II / Badlapur (West) /Tech/2022-23/T-20)Limited to 11,48,400/-Lakhs /Rs.1180/- Rs. 11484/- /Contract for hiring of vehicle for Dy. Executive Engineer, Badlapur (West) S/Dn under Kalyan Circle- II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
11	(SE/KC-II /Badlapur (East) /Tech/2022-23/T-21)Limited to 10,76,400/-Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- /Contract for hiring of vehicle for Add. Executive Engineer, Badlapur (East) S/Dn under Kalyan Circle- II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
12	(SE/KC-II /Ulhas-I S/Dn /Tech/2022-23/T-22)Limited to 10,76,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- /Contract for hiring of vehicle for Add.Executive Engineer, Ulhas-I S/Dn under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023- 24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
13	(SE/KC-II /Ulhas-II S/Dn /Tech/2022-23/T-23)Limited to 10,76,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- /Contract for hiring of vehicle for Add. Executive Engineer, Ulhas-II S/Dn under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023- 24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
14	(SE/KC-II /Ulhas-III S/Dn /Tech/2022-23/T-24)Limited to 10,76,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- /Contract for hiring of vehicle for Add. Executive Engineer, Ulhas-III S/Dn under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
15	(SE/KC-II /Ulhas-IV S/Dn /Tech/2022-23/T-25)Limited to 10,76,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- /Contract for hiring of vehicle for Add. Executive Engineer, Ulhas-IV S/Dn under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023- 24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
16	(SE/KC-II /Ulhas-V S/Dn /Tech/2022-23/T-26)Limited to 10,76,400/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- /Contract for hiring of vehicle for Add. Executive Engineer, Ulhas-V S/Dn under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023- 24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
17	(SE/KC-II /Ambernath(East)/Tech/2022-23/T-27)Limited to 10,76,400/-Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- /Contract for hiring of vehicle for Add. Executive Engineer, Ambernath(East)S/Dn under Kalyan Circle- II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
18	(SE/KC-II /Ambernath(West)/Tech/2022-23/T-28)Limited to 10,76,400/-Lakhs /Rs.1180/- Rs. 10764/- /Contract for hiring of vehicle for Add. Executive Engineer, Ambernath(West)S/Dn under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023-24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.
19	(SE/KC-II / Flying Squad /Tech/2022-23/T-29)Limited to 14,94000/- Lakhs /Rs.1180/- Rs. 149400/- /Contract for hiring of vehicle for Add. Executive Engineer, Flying Squad under Kalyan Circle-II for F.Y. 2023- 24, 2024-25 & 2025-26.	From 21.03.2023 to 31.03.2023	Dt. 31.03.2023 up to 15.00 Hrs.

The bidders are requested to get registered for e-tendering procedure.
Contact Person – Executive Engineer (Adm),
Tel No. – 0251-2328283-Ext No- 302, **Mob:** EE (Adm) 8879626969,
Y.E.E (P.S.E.D.) 8879626976
ADD: M.-S.-E.-D. Co. Ltd, Kalyan –II circle (O&M), Tejashree, Third floor, Kalyan (W) - 421 301
Email – sekalyan2@gmail.com **Website-** www.mahadiscom.in

(D.N.Bhole)
Superintending Engineer
O&